

## प्रेस विज्ञप्ति

**इरेडा ने 1,252 करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च वार्षिक शुद्ध लाभ अर्जित किया, एनपीए 1% से नीचे, बैंकिंग-एनबीएफसी क्षेत्र में सबसे तीव्र परिणाम के साथ बेंचमार्क स्थापित किया**

नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2024

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा), देश की सबसे बड़ी विशुद्ध ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने अभूतपूर्व लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा की।

इरेडा ने 1252.23 करोड़ रुपये के अब तक का उच्चतम वार्षिक कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया है जोकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 44.83% की एक प्रभावशाली वृद्धि है। कंपनी ने अपनी नेट गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1.66% से घटाकर इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में सफलतापूर्वक 0.99% कर दिया है, जोकि साल-दर-साल 40.52% की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

इरेडा के निदेशक मंडल ने आज पंजीकृत कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान कंपनी के असाधारण प्रदर्शन और निरंतर विकास की सराहना की, जहां उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।

इरेडा की ऋण बुक दिनांक 31 मार्च 2023 को 47,052.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 59,698.11 करोड़ रुपये (26.81% की वृद्धि दर्ज करते हुए) हो गई है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वकालिक उच्च वार्षिक ऋण स्वीकृति 37,353.68 करोड़ रुपये और 25,089.04 करोड़ रुपये ऋण संवितरण किया है जोकि पिछले वित्तीय वर्ष के 32,586.60 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति और 21,639.21 करोड़ रुपये ऋण संवितरण की तुलना में क्रमशः 14.63% और 15.94% की वृद्धि दर्ज की गई। यह कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक वार्षिक ऋण संवितरण और स्वीकृति का प्रतीक है।

31 मार्च 2024 के अनुसार कंपनी की नेटवर्थ 8,559.43 करोड़ रुपये हो गई है जोकि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान 5,935.17 करोड़ रुपये थी (44.22% की वृद्धि)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वित्तीय मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- कर पूर्व लाभ: 1,139.25 करोड़ रुपये की तुलना में 1,685.24 करोड़ रुपये। (47.93% अधिक)
- कर के बाद लाभ: 864.63 करोड़ रुपये की तुलना में 1,252.23 करोड़ रुपये। (44.83% अधिक)
- ऋण स्वीकृति: 32,586.60 करोड़ रुपये की तुलना में 37,353.68 करोड़ (14.63% अधिक)
- ऋण संवितरण: 21,639.21 करोड़ रुपये की तुलना में 25,089.04 करोड़ (15.94% अधिक)
- ऋण बुक : 47,052.52 करोड़ रुपये की तुलना में 59,698.11 करोड़ रुपये। (26.81% अधिक)
- नेट वर्थ: 5,935.17 करोड़ रुपये की तुलना में 8,559.43 करोड़ रुपये। (44.22% अधिक)
- नेट एनपीए: 1.66% की तुलना में 0.99% (प्रतिशत के संदर्भ में 40.52% की कमी)

वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही लिए मुख्य वित्तीय बातें इस प्रकार हैं:

- कर पूर्व लाभ: 288.38 करोड़ रुपये की तुलना में 479.67 करोड़ रुपये। (66.33% अधिक)
- कर के बाद लाभ: 253.62 करोड़ रुपये की तुलना में 337.38 करोड़ रुपये। (33.03% अधिक)
- ऋण स्वीकृति: 11,796.95 करोड़ रुपये की तुलना में 23,407.57 करोड़ रुपये । (98.42% अधिक)
- ऋण संवितरण: 11,291.09 करोड़ रुपये की तुलना में 12,869.35 करोड़ रुपये (13.98% अधिक)
- ऋण बुक : 47,052.52 करोड़ रुपये की तुलना में 59,698.11 करोड़ रुपये। (26.81% अधिक)
- नेट वर्थ : 5,935.17 करोड़ रुपये की तुलना में 8,559.43 करोड़ रुपये। (44.22% अधिक)
- नेट एनपीए: 1.66% की तुलना में 0.99% (प्रतिशत के संदर्भ में 40.52% की कमी)

इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास ने उल्लेखनीय वित्तीय परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के लिए इरेडा की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जोकि निवेशकों और हितधारकों के लिए एक आशाजनक प्रक्षेप पथ का संकेत देता है।

इरेडा के सीएमडी ने कंपनी की प्रगति का श्रेय अपने हितधारकों के अटूट विश्वास और समर्थन को दिया तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और निदेशक मंडल को उनके अपरिहार्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने टीम इरेडा टीम की उनके समर्पण और लगातार प्रयासों के लिए भी सराहना की, जिसने उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विशेष रूप से, इरेडा ने केवल 19 दिनों के भीतर अपने वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करके एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है, जोकि बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र में लेखापरीक्षित परिणामों का सबसे शीघ्र प्रकाशन है, जोकि सेबी की 60-दिन की समय सीमा से पहले है। यह उपलब्धि पिछले वर्ष 25 दिनों के भीतर परिणाम प्रकाशित करने के रिकॉर्ड के बाद आई है।

\*\*\*\*\*